



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012024-251646
CG-DL-E-30012024-251646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 2024/माघ 10, 1945

No. 69]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 2024/MAGHA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जनवरी, 2024

संख्या 05/2024-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 77(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 02/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी II में , क्रम संख्यांक (83) में, स्तंभ (3) के खंड (ii) में “411060,”, अंक और अक्षर के पश्चात्, “411069,” अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/18/2023-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 02/2017-केन्द्रीय कर, 19 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में संख्यांक सा.का.नि. सं. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 612(अ), तारीख 17 अगस्त, 2023 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 39/2023-केन्द्रीय कर, तारीख 17 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2024

No. 05/2024 – CENTRAL TAX

G.S.R. 77(E).— In exercise of the powers under section 3 read with section 5 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 3 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017, namely:—

In the said notification, in Table II, in serial number 83, in column (3), in clause (ii), after the figure and letter “411060,”, the figure and letter “411069,” shall be inserted.

[F. No. CBIC-20016/18/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

Note:—The principal notification No. 02/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 609(E), dated the 19th June, 2017 and was last amended by notification No. 39/2023-Central Tax, dated the 17th August, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 612(E), dated the 17th August, 2023.